



Indus Valley Civilization

Indus Valley Civilization

Indus Valley Civilization (Indus Valley Civilization) is one of the earliest civilizations of the world. It was located in the northwestern region of the Indian subcontinent, in what is now Pakistan and India. The civilization flourished from around 3300 BCE to 1750 BCE. It is known for its advanced urban planning, including grid-like city layouts, standardized bricks, and a sophisticated drainage system. The Indus Valley Civilization is also famous for its undeciphered script, which remains one of the great mysteries of the world. The civilization was a part of the larger Harappan Civilization, which was a part of the Indus River Valley. The Indus Valley Civilization was a part of the larger Harappan Civilization, which was a part of the Indus River Valley. The Indus Valley Civilization was a part of the larger Harappan Civilization, which was a part of the Indus River Valley.

Indus Valley Civilization

Indus Valley Civilization (Indus Valley Civilization) is one of the earliest civilizations of the world. It was located in the northwestern region of the Indian subcontinent, in what is now Pakistan and India. The civilization flourished from around 3300 BCE to 1750 BCE. It is known for its advanced urban planning, including grid-like city layouts, standardized bricks, and a sophisticated drainage system. The Indus Valley Civilization is also famous for its undeciphered script, which remains one of the great mysteries of the world. The civilization was a part of the larger Harappan Civilization, which was a part of the Indus River Valley. The Indus Valley Civilization was a part of the larger Harappan Civilization, which was a part of the Indus River Valley.

- Indus Valley Civilization (Indus Valley Civilization) is one of the earliest civilizations of the world.
- It was located in the northwestern region of the Indian subcontinent, in what is now Pakistan and India.
- The civilization flourished from around 3300 BCE to 1750 BCE.
- It is known for its advanced urban planning, including grid-like city layouts, standardized bricks, and a sophisticated drainage system.

Indus Valley Civilization

Indus Valley Civilization (Indus Valley Civilization) is one of the earliest civilizations of the world. It was located in the northwestern region of the Indian subcontinent, in what is now Pakistan and India. The civilization flourished from around 3300 BCE to 1750 BCE. It is known for its advanced urban planning, including grid-like city layouts, standardized bricks, and a sophisticated drainage system. The Indus Valley Civilization is also famous for its undeciphered script, which remains one of the great mysteries of the world. The civilization was a part of the larger Harappan Civilization, which was a part of the Indus River Valley. The Indus Valley Civilization was a part of the larger Harappan Civilization, which was a part of the Indus River Valley.



1. **Pre-Harappan Period** 3300 BC - 2600 BC
This period is characterized by the early development of the Harappan civilization. It includes the early Harappan phase and the mature Harappan phase. The mature Harappan phase is known for its well-planned cities, standardized weights and measures, and the use of the Indus script.
2. **Mature Harappan Period** 2600 BC - 1900 BC
This period is the peak of the Harappan civilization. It is characterized by the construction of large, well-planned cities like Mohenjo-daro and Harappa. The cities were built on a grid system with wide streets and drainage systems. The mature Harappan phase is also known for its standardized weights and measures, and the use of the Indus script.
3. **Late Harappan Period** 1900 BC - 1300 BC
This period marks the decline of the Harappan civilization. It is characterized by the abandonment of the large, well-planned cities and the emergence of smaller, less organized settlements. The late Harappan phase is also known for the decline of the Indus script.

• Town Planning

The Harappan civilization is known for its well-planned cities. The cities were built on a grid system with wide streets and drainage systems. The mature Harappan phase is also known for its standardized weights and measures, and the use of the Indus script.

- The cities were built on a grid system with wide streets and drainage systems.
- The mature Harappan phase is also known for its standardized weights and measures, and the use of the Indus script.
- The late Harappan phase is also known for the decline of the Indus script.
- The cities were built on a grid system with wide streets and drainage systems.
- The mature Harappan phase is also known for its standardized weights and measures, and the use of the Indus script.
- The late Harappan phase is also known for the decline of the Indus script.

• Town Planning

1. Pre-Harappan Period

- This period is characterized by the early development of the Harappan civilization.
- It includes the early Harappan phase and the mature Harappan phase.

2. Mature Harappan Period

- This period is the peak of the Harappan civilization.
- It is characterized by the construction of large, well-planned cities like Mohenjo-daro and Harappa.



3. i ©' i

- $\neg \bullet \ddot{Z} : \neg \mu \bullet \dagger <$
- $\text{€} \circ \gg \ddot{A} < \dagger : \neg \mu \pm \wedge \dots$ (Dockyard) — • $\ddot{S}\ddot{Z}' \cdot ' \wedge \circ \text{€} \dagger \ddot{Z}$

4. • < i † Æ

- $\neg \bullet \ddot{Z} : \bullet \dagger \alpha \neg \bullet \ddot{Z}$
- $\text{€} \circ \gg \ddot{A} < \dagger : \text{¶} \text{€} \hat{\text{I}} \ddot{Z} \circ \pm \wedge - \bullet \quad | \quad \bullet " \alpha \mu < " - \alpha \text{€} \text{€} \cdot ' " \text{€} \ddot{S} \dagger \frac{1}{2} \ddot{Z}$

5. f © i < - † <

- $\neg \bullet \ddot{Z} : ' \quad \text{I} \ddot{A} (\neg \mu \bullet \dagger <)$
- $\text{€} \circ \gg \ddot{A} < \dagger : \alpha | - \bullet \neg \text{D} \frac{1}{2} \text{€} \frac{1}{2} \dagger | \wedge - \bullet ' \quad | " \ddot{S} \text{€} \ddot{Z} \ddot{Z}$

◦ " † % - " " <

$\text{€} \bullet f_{\dots} \dagger \dagger \wedge ' \wedge \text{¶} \bullet \text{€} \ddot{S} \circ \neg \bullet \dagger ' \ddot{A} \ddot{A}, \text{€} \gg \text{€} \dagger | \ddot{Z}, \neg < ' \quad | \dagger - \bullet \text{€} \ddot{S} \dagger \text{€} \dagger \bullet \text{€} \bullet \ll f \dagger \text{€} \bullet < \bullet \wedge :$

- $\ddot{S} \hat{\text{A}} \ddot{S} \circ \bullet | > \text{€} - " \quad \ddot{S} \alpha \frac{1}{4}, \text{€} < | , ' \text{€} \dagger \bullet \ddot{Z}$
- $\text{€} \gg \text{€} \dagger | \ddot{Z} \ddot{S} - \dagger \ddot{S}, ' \text{¥}, \bullet \text{¶} , ' ' \bullet \wedge, \text{€} \dagger \gg \dagger \text{€} \ddot{S} | \bullet \ddot{Z}$
- $' \dagger \wedge - \bullet f \dagger < , \text{€} \ddot{S} \dagger \ddot{A} \wedge , \ddot{S} \ddot{Z}' " , \ll \bullet \ddot{A} \frac{1}{2} - \bullet ' \text{€} | " \ddot{Z} \dagger < " \bullet \ddot{Z}$
- $\ddot{S} \bullet \mu \text{€} \mu \dagger \dagger \text{€} \ddot{S} \dagger ' " \bullet \dagger \bullet \bullet \ddot{S} \text{€} \text{D} - \bullet \neg \bullet | \wedge \ddot{S} \text{€} \ddot{S} \dagger \text{€} \dagger \bullet \mu < \dagger \bullet \ddot{Z}$

fTM † ' • Æ † Š

$\text{€} \bullet f_{\dots} \dagger \dagger \wedge ' " \quad | \mu - f \dagger \text{€} \ddot{S}^a \ll \neg \bullet \dagger^{\text{TM}}, \bullet " \alpha_i " \bullet " :$

- $\ddot{S} \dagger < \dagger \pm \circ \wedge$ (Mother Goddess) ' $\wedge \text{€} \ddot{A} \ddot{Z}$
- $\text{€} \gg \text{€} \text{€} < \ddot{S} \dagger \pm \circ ' \wedge \text{€} \ddot{A} \dagger \text{€} \text{€} ' \ddot{S} , \bullet \text{€} \bullet \text{€} - \ddot{S} \text{€} \wedge \pm \circ < \dagger ' \dagger \text{€} \bullet - \ddot{Z}$
- $\circ \text{€} , \text{€} \gg , - \bullet \text{€} \dagger \ddot{A} < ' \gg \text{€} \text{€} < \ddot{S} . ' \wedge \text{€} \ddot{A} \ddot{Z}$



• $\eta \hat{\Gamma} \tilde{Z} \odot^{\pm} - \cdot f \{ \epsilon \tilde{S}^a \} \eta \tilde{Z} \} \sim \tilde{t} \tilde{Z} \tilde{Z}$

$\mathbb{E}_i \quad \mathbb{E} \bullet \quad \mathbb{Z} \quad ' \quad \mathbb{C} < - <$

$\downarrow \mathbb{C} \mathbb{E} \uparrow ' \wedge \mathbb{E} \downarrow \mathbb{E} \eta \bullet \wedge < ' \quad \mathbb{E} \mathcal{O} \wedge \tilde{Z} \wedge , \alpha \uparrow \bullet ' \wedge \quad \mathbb{X} \tilde{S} \quad \mathbb{E} \bullet \neg \mathbb{E} \downarrow \mathbb{E} \mathbb{E} \text{ (Pictographic Script)} \bullet \wedge \mathbb{E} \alpha \bullet \tilde{S}$
 $\downarrow - \bullet - 400 \mathbb{E} \bullet \tilde{\mathcal{O}} \mathbb{E} \tilde{S} \downarrow < " \quad \tilde{Z} \tilde{Y} \bullet ' \uparrow \mathbb{E} \tilde{S} \mu - \tilde{S} , \bullet , \mathbb{E} \tilde{S} \downarrow \tilde{\mathbb{N}} \wedge ' ' ' < \tilde{Z} \cdot - \bullet < \uparrow \tilde{S} \tilde{\mathbb{H}} \neg \cdot \mathbb{E} \bullet \quad \mu < \uparrow \bullet \tilde{t} \tilde{Z}$

• $i < \mathbb{Z} ' \mathbb{E} \ll ' \bullet$

- $' \quad \uparrow , \tilde{S} , \mathbb{E} \tilde{S} \downarrow \tilde{\mathbb{N}} \wedge - \bullet \mathbb{E}^{\circ} \bullet \bullet ' \wedge \tilde{S} \mathbb{E} < \tilde{S} \tilde{t} \tilde{Z}$
- $\tilde{S} \mu \quad \tilde{Z} \alpha \mu \pm i \mu \bullet \mathbb{E} \uparrow \mathbb{C} < \tilde{\mathcal{O}} \tilde{Z} <^a \wedge ' \wedge \tilde{S} \mathbb{E} < \tilde{\theta} \text{ (Bronze Dancing Girl)} \tilde{Z}$
- $\tilde{\mathcal{O}} \mathbb{E} \gg \mathbb{E} \mathbb{E} < \tilde{S} , \bullet \tilde{\mathcal{O}}^3 f \{ \epsilon \tilde{S}^a \} \tilde{S} \quad \circ \odot ' \wedge \tilde{Z}$
- $\mathbb{E} \tilde{S} \downarrow \tilde{\mathbb{N}} \wedge ' ' \mathbb{E}^2 \downarrow \frac{1}{2} \tilde{Z} , \tilde{S} \tilde{Z} ' " - \bullet \ll \bullet \tilde{A} \frac{1}{2} \tilde{Z}$

$\mathbb{E}_i \quad \mathbb{E} \bullet \bullet < \bullet \downarrow \pm \% - " " <$

$\mathbb{E} \bullet f , \dots \uparrow \downarrow \uparrow \wedge \bullet \% \tilde{S} < \uparrow ' \wedge \alpha \downarrow \quad \mathbb{E} \tilde{Z} ' \uparrow \bullet \mathbb{E} \frac{1}{2} \uparrow \downarrow \wedge \eta \downarrow \pm \tilde{\mathbb{N}} < \wedge \tilde{S} \bullet \wedge :$

- $\mathbb{E}^{\circ} \tilde{S} " \quad \dots \bullet \bullet \mathbb{E} \uparrow \tilde{Z} \wedge \tilde{Z} \mathbb{E} \downarrow \tilde{S} \cdot \tilde{S} \alpha \downarrow \uparrow \bullet \tilde{t} \tilde{Z}$
- $\tilde{S} \hat{A} \tilde{S} \tilde{Z} \mathbb{E} \downarrow \tilde{S} \tilde{t} \mathbb{E} \mathbb{E} ' \wedge \mathbb{E} \downarrow \cdot \bullet " \tilde{Z} \wedge \bullet \wedge \tilde{Z}$
- $\tilde{Z} \mathbb{E} \downarrow \tilde{S} \cdot \mathbb{E} \bullet \downarrow \mathbb{E} ' \tilde{Z} \downarrow - " \quad \mu < " \bullet " < \mathbb{E} ' \quad - \pm - \wedge - \bullet ' \pm ' \tilde{Z} \quad \circ \mathbb{N} \tilde{Z}$

• $\tilde{S} \bullet \quad \bullet \neg \bullet \quad \mathbb{C} ' \bullet$

$\mathbb{E} \bullet f , \dots \uparrow \downarrow \uparrow \wedge \bullet \% \tilde{S} < \uparrow ' " \mathbb{E} < \tilde{Z} ' " " \quad \tilde{S} ' \uparrow \bullet \frac{1}{2} \tilde{S} \tilde{t} \tilde{Z} " \alpha \downarrow < " \quad \downarrow$

- $' \quad \uparrow \mathcal{O} - \bullet \alpha \downarrow \quad \odot \uparrow \tilde{S} , \mathbb{E} \mathbb{E} \bullet \odot < \tilde{Z} \tilde{Z}$
- $\tilde{Z} \mathbb{E} \pm \tilde{S} \cdot ' \uparrow \tilde{S} \uparrow -^a \pm \downarrow \tilde{Z} \tilde{t} \tilde{Z}$
- $\ll \tilde{S} \mu ,^a \uparrow \ll \times \tilde{S} \frac{1}{2} \tilde{Z}$
- $\tilde{A} \tilde{S} \tilde{t} \mathbb{E} \uparrow \bullet ' \uparrow \mathbb{E} < \tilde{Z} - \bullet ' \tilde{A} \tilde{A} " \circ \mathbb{E} \uparrow \pm \tilde{Z} \tilde{S} ' \tilde{S} \wedge \tilde{Z}$



TM $\alpha \mu - 2 ' \epsilon - ' < \bullet \check{S}$

$\epsilon \bullet f_{\dots} t \hat{\cdot} \bullet \% \check{S} < t \check{Z} \check{Z} - \bullet \epsilon \check{S} \mu \alpha \check{Z}, \neg \odot \dot{I} \check{A} < t, ' | t, \epsilon \gg \emptyset \epsilon - \bullet \check{A} \check{S} t \epsilon t \bullet \check{S} \eta \pm \check{N}_k \check{S} \mu - \pm t \check{Z}$
 $\epsilon \pm \check{S} t \check{Z} \check{Y} \bullet ' \wedge \epsilon \odot \bullet t < \ll \alpha \bullet \wedge \bullet t < \hat{S} \bullet \neg ' \check{A} < \check{S} \dot{U} | ' < \wedge \check{Y}$

$\epsilon \bullet \eta \bullet - \check{Y}$

$\epsilon \bullet f_{\dots} t \hat{\cdot} \bullet \% \check{S} < t \epsilon t \bullet \check{Z} \bullet t < ' \wedge - \frac{1}{4} \odot \gg t | \wedge " \epsilon | \epsilon \dot{U} f \bullet \check{Z} \check{Y} \bullet " | \mu - " \bullet \check{Z} < \bullet \mu \bullet, \check{A} \check{S} \odot \epsilon - \bullet <$
 $\alpha \wedge \odot \check{Z} - \bullet " \circ ' \check{A} t \gg \bullet \wedge \check{A} \check{S} \odot - \bullet t " \epsilon | \alpha \alpha t \check{Z} " \alpha t < " \bullet \check{Z} \check{Y} \bullet ' t \eta \dot{U} \check{S} \check{S} \check{Z} \check{S} \check{S} \epsilon \bullet \geq t < t \check{Y}'$
 $\alpha t \bullet \odot \check{A} \alpha \epsilon | " \bullet \wedge \bullet t < \check{S} \epsilon \odot \dot{U} t \check{Z}, ' | t - \bullet \bullet \neg ' \check{A} < ' t " \dot{I} \bullet \neg < \bullet \check{S} \frac{1}{4} \alpha \pm \bullet t \check{Z}$

$\neg \alpha \epsilon - \bullet \neg \bullet t \% \bullet \bullet$ • (Multiple Choice Questions)

Ques. 1: $\dot{\odot} ' \dot{\imath} \text{ TM } \check{S} \bullet \bullet - \bullet < - 1 \odot ' \bullet \text{ TM } \check{O} " < \gg$

- ☐ (A) $\epsilon \check{S} t \check{N} \wedge ' " ' < \check{Z}$
- ☐ (B) $\check{S} \check{Z} ' t \epsilon \check{Z} \check{S} t \frac{1}{2}$
- ☐ (C) $| \mu " ' t ' t \check{S}$
- ☐ (D) $\bullet \gg \check{S} " \check{Y} \mu -$

Ques. 2: $\epsilon \bullet \check{A}_{\dots} t \hat{\cdot} \bullet \wedge \% \check{S} < \bullet < \bullet < \dot{\imath} \epsilon \bullet \bullet \% \check{Y} \text{ TM } \check{S} \frac{1}{4} \check{S} < \alpha \frac{1}{2}$

- ☐ (A) $\epsilon t \check{A} t \frac{1}{2} \check{S}_{\neg}$
- ☐ (B) $' t \neg \check{S} \check{S}_{\neg}$
- ☐ (C) $| \frac{1}{4} \check{S}_{\neg}$
- ☐ (D) $\check{S} \dot{U} \check{S} \check{S}_{\neg}$



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

Ques. 3: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

- ☐ (A) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (B) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (C) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (D) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

Ques. 4: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

- ☐ (A) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (B) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (C) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (D) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

Ques. 5: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

- ☐ (A) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (B) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (C) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (D) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

Ques. 6: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

- ☐ (A) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (B) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (C) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
- ☐ (D) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

Ques. 7: €•œ„…‹†‡•^‰Š‹•‡•€¡‰©œ§%α¤©Š‹"‹›

- ☐ (A) £°••
☐ (B) | ' i ^
☐ (C) ð Ê' Ž
☐ (D) •"ζ

Ques. 8: ' < ° ‡ ¨ ¾ ‡ € • • ' < ; % º ™ Š º ½

- ☐ (A) $\text{f} \cdot \check{\text{S}} \text{t} \frac{1}{2} \text{t}$
☐ (B) $-\text{r} \cdot \text{t} <$
☐ (C) $\text{f} \cdot \text{r} \text{t}'$
☐ (D) $\cdot \text{t} \text{r} - \cdot \text{t} \check{\text{Z}}$

Ques. 9: € • ~~£~~...<†‡ • ^%‰Š<™Š• - • ¬ ¥< • ‘’ • • - • < " <>>

- ☐ (A) $i \notin t$
☐ (B) $\check{s}_\mu \check{z}_{\alpha\mu\pm i} \mu$
☐ (C) $f\mu_i t^{\odot} \cdot t$
☐ (D) $\cdot t^2 \wedge - \acute{O} \wedge$

Ques. 10: €•~~£~~...<††•^%Š<•†•™〇//À•j•,•-•†"†»

- ☐ (A) •†©|
☐ (B) —" ;
☐ (C) —•Ž†
☐ (D) ŠÊ' †



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

Ques. 11: "•«„Š Š™Š' " Š•• " " i •¬ <Š ŠŠ»

- ☐ (A) Šµ ŽŠµ± i µ
- ☐ (B) | µ• |
- ☐ (C) i Š£†
- ☐ (D) ' †| ^ ¬ Ž

Ques. 12: "•ŠŸ† •†™ŠŸ Š•• f<Š„† ^† Š½

- ☐ (A) <†, †
- ☐ (B) •µŽ†
- ☐ (C) ' †¬Š
- ☐ (D) •†£^

Ques. 13: Š•Š„...<†† •^%Š< •† Ši Š• Š•• ••< •† "†»

- ☐ (A) ' ŠŠ^
- ☐ (B) Š• ^Ši Š£
- ☐ (C) ≥•µ0~^
- ☐ (D) •¬' Š

Ques. 14: f©i <¬† < Š•• ' <Š%™ŠŠ½

- ☐ (A) £,Š†'
- ☐ (B) Š•Š†½†
- ☐ (C) ¬Š•†<
- ☐ (D) •†Š¬•†Ž



Ques. 15: $\bullet \angle i \text{ } \ddagger \text{ } \mathbb{E} \bullet \angle \mathbb{Q}'' \text{ } \check{S} \text{ } \alpha \frac{1}{2}$

- ☐ (A) $\neg \alpha \bullet \dagger \angle$
- ☐ (B) $\bullet \dagger \alpha \neg \bullet \dagger \check{Z}$
- ☐ (C) $\mathbb{E} \alpha \dagger'$
- ☐ (D) $\mathbb{E} \bullet \check{S} \dagger \frac{1}{2} \dagger$

Ques. 16: $\text{TM} \alpha \angle \bullet \text{ } \text{''} \bullet \angle \bullet \angle \text{ } \angle \text{ } \mathbb{E} \bullet \bullet \text{ } \text{''} \text{''} \text{ } i \bullet \text{ } \neg \text{TM} i \angle \alpha \frac{1}{2}$

- ☐ (A) $i \text{ } \mathbb{E} \dagger$
- ☐ (B) $i \text{ } \mu \bullet i$
- ☐ (C) $\check{S} \mu \check{Z} \alpha \mu \pm i \mu$
- ☐ (D) $' \dagger i \text{ } \sim \neg \check{Z}$

Ques. 17: $i \text{ } \mathbb{Q}'' i \text{ } \mathbb{E} \bullet \bullet \bullet \neg \mathbb{E} i \check{Z} \bullet \mathbb{E} \bullet \hat{A} \alpha \frac{1}{2}$

- ☐ (A) $\check{S} \text{ } \dagger \check{Z} \neg \check{Z} \dagger \check{Z} \dagger \neg \dagger \bullet$
- ☐ (B) $\neg \mu \pm \hat{\dots} \bullet$ (Dockyard)
- ☐ (C) $\P \mathbb{E} \hat{I} \check{Z} \text{ } \mathbb{Q} \pm \hat{\text{''}}$
- ☐ (D) $\alpha i \text{ } \neg \bullet \neg \mathbb{D} \frac{1}{2} \mathbb{E} \frac{1}{2} \dagger i \text{ } \hat{\text{''}}$

Ques. 18: $\text{TM} \mathbb{C} \alpha \bullet \mathbb{E} \mathbb{Q} \text{ } \mathbb{Y} \mathbb{C} \bullet \angle \mathbb{Q}'' \text{ } \check{S} \alpha \frac{1}{2}$

- ☐ (A) $\neg \alpha \bullet \dagger \angle$
- ☐ (B) $\mathbb{E} \bullet f (\mathbb{E} \dagger \mathbb{E}' \neg \angle \dagger \check{Z})$
- ☐ (C) $\mathbb{E} \alpha \dagger' (\bullet \dagger \bullet \angle)$
- ☐ (D) $\bullet \dagger \alpha \neg \bullet \dagger \check{Z}$



Exams : UPSC, SSC, Railway, Banking, Police Teaching, Defense & All Government Job Recruitment Exams
Study Material : Current Affairs, GK, General Studies, Reasoning, Mathematics, English, Hindi etc.

[illegible]

- ☐ (A) $\check{\text{S}}_{\mu} \check{Z}_{\alpha\mu\pm i \mu}$
☐ (B) $_{i} \text{€} \text{€} \text{€}$
☐ (C) $_{i} \mu \bullet _{i}$
☐ (D) $' \text{€} _{i} \text{€} _{i} \check{Z}$

Ques. 20: € • ~~£~~...<†‡ • ^%Š< • < Ž • ° , % • <™ §%< α ½

- ☐ (A) $i \in \mathbb{E}^+ \cdot \frac{1}{\%} \check{S} < \dagger$
☐ (B) $\odot \mathbb{Y}_{\pm}' \cdot \frac{1}{\%} \check{S} < \dagger$
☐ (C) $\check{S} \frac{1}{\%} \check{S}^a \cdot \frac{1}{\%} \check{S} < \dagger$
☐ (D) $-\mathbb{J} < \cdot \frac{1}{\%} \check{S} < \dagger$